


पृ. 2 See 3(1)
No. 26
Missing
Gn



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]
No. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1979/आषाढ़ 2, 1901
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1979/ASADHA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central
Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली 7 जून, 1979

सां० कां० नि० 850.— कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1)
की धारा 624-क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा, श्री दिलीप सी० बटुक, पब्लिक प्रोसीक्यूटर, पश्चिमी बंगाल,
राज्य को, पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुरी के जूडिशियल मैजिस्ट्रेट के
समक्ष, कथित अधिनियम से उत्पन्न मामलों को पेश करने के लिये
कम्पनी अधिनियम के पद पर नियुक्त करता है ।

सं० 9/1/78-सी०/एल० -4]

एस० एम० मिश्र, अधर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th June, 1979

G.S.R. 850.—In exercise of the power conferred by section
624-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central

Government hereby appoints Shri Dilip C. Ghattack, Public
Prosecutor, West Bengal State as Company Prosecutor for
conducting the cases arising out of the aforesaid Act before
the court of Judicial Magistrate at Jalpaiguri, West Bengal.

[No. 9/1/78-CL. IV]

S. S. MISRA, Under Secy.

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 14 जून, 1979

शुद्धिपत्र

सां० कां० नि० 851—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3, उप-
खण्ड (i) तारीख 22 जून, 1978 के पृष्ठ 545 पर प्रकाशित भारत सरकार
के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की
अधिसूचना सं० सां० कां० नि० 334(अ), तारीख 22 जून, 1978 में,

(i) सं० आ० 110 के नीचे शीर्षक में "अनुसूचित जाति" के स्थान पर
"अनुसूचित जातियों" पढ़ें ;

(ii) पैरि 5 में, "अनुच्छेद 342" के स्थान पर "अनुच्छेद 341"
पढ़ें ;

(iii) आदेश के खण्ड 1 में, "अनुसूचित जाति" के स्थान पर
"अनुसूचित जातियाँ" पढ़ें ।

[सं० रा० 19(1)/78-एल० आ०]

सांका० नि० 852—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 22 जून, 1978 के पृष्ठ 546 पर प्रकाशित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० सांका० नि० 335 (अ) तारीख 22 जून, 1978 में।

(i) सं० ग्रा० 111 के नीचे शीर्षक में "अनुसूचित जनजाति" के स्थान पर "अनुसूचित जनजातियाँ" पढ़ें ;

(ii) आदेश के खण्ड 1 में "अनुसूचित जनजाति" के स्थान पर "अनुसूचित जनजातियाँ" पढ़ें ।

[सं० एफ० 19(1)/78-एस० ग्रा०]

श्री० एस० रामा देवी, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 1979

सांका० नि० 853.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय अधिसूचना ब्यूरो, में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में विभिन्न पदों की भर्ती प्रणाली को विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(i) इन नियमों का नाम अधिसूचना ब्यूरो (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पद) संशोधन नियम, 1979 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिसूचना ब्यूरो (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में कालम II में दफ्तरी चयन ग्रेड के पद के विरुद्ध वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"अधिसूचना ब्यूरो के उन दफ्तरी ग्रेड से पदोन्नति जिन्होंने उक्त पद पर लगातार कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।"

[सं० 5/एस० प्रो० (सी)/78(10)पर्स-1]

एस० डी० गुप्ता, अधीक्षक सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th June, 1979

G.S.R. 853.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the various Class III and IV posts in the Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. (i) These rules may be called the Intelligence Bureau (Class III and IV posts) (Amendment) Rules, 1979.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Intelligence Bureau (Class III and IV) Recruitment Rules, 1973 for the existing entries against the post of a Daftry Selection Grade, in column 11, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion from the grade of Daftry in the Intelligence Bureau who have rendered at least 3 years continuous service in that capacity."

[No. 5/SO (C)/78(10)-Pers. II]

S. D. GUPTA, Under Secy.

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 6 जून, 1979

सां० का० नि० 854.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सांख्यिकीय सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 1961 में :—

(I) "श्रेणी I-निदेशक (1300-100-2000 रु०)" शीर्षक के नीचे :—

(क) स्तम्भ 5 और 6 में, मद 3 की उपमद (i) के खण्ड (ख) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "2" और "2" प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी,

(ख) मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"१. ग्रामीण विकास विभाग (कृषि और सिंचाई मंत्रालय) (1500-60-1800 रु०)"	निदेशक (प्रशासनिक आसूचना)			1	1"
(II) "श्रेणी I संयुक्त निदेशक"	"शीर्षक के अधीन,—				
(क) मद 2 में, उपमद (II) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपमद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—					

1	2	3	4	5	6
(ii)	महानिदेशक, खान-सुरक्षा धनबाद संयुक्त निदेशक खान सुरक्षा (सांख्यिकी)		---	1	1"

(ख) मध 6 की उपमद (ii) के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों में, 'संयुक्त निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'उप महाहकार' शब्द रखे जाएंगे,

(iii) श्रेणी III-उप निदेशक [1100-(छटा वर्ष या कम) 50-1600 रु.] उप शीर्ष के नीचे,—

(क) स्तम्भ 5 और 6 में, मध 6 की उपमद (1) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "3" और "4" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(ख) मध 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मध और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

1	2	3	4	5	6
"7. राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)		सांख्यिकी (आयकर)	1	---	1
(i) निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन)					
(ii) सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय, (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)		उपेष्ट अनुसंधान अधिकारी	1	---	1"

(ग) मध 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मध और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

1	2	3	4	5	6
"14 परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)		सांख्यिकी अधिकारी	---	1	1
		उपेष्ट अनुसंधान अधिकारी	1	1	2
		बाजार अनुसंधान कार्यपालक	1	---	1"

(घ) मध 19 में, उपमद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

1	2	3	4	5	6
"(ii)	आसूचना व्यूरो	उपेष्ट अनुसंधान अधिकारी	1	1	2"

[फा० सं० 12011/4/79-आई० एस० एस०]

पी० जी० सेले, उप सचिव

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 6th June, 1979

G.S.R. 854.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Statistical Service Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Statistical Service (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In Schedule I to the Indian Statistical Service Rules, 1961,—

(1) under the heading "GRADE I—DIRECTOR (Rs. 1800-100-2000)",—

(a) in the entries against clause (b) of sub-item (i) of item 3, in columns 5 and 6, for the existing entries, the entries "2" and "2" shall respectively be substituted ;

(b) after item 6 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7.	Department of Rural Development (Ministry of Agriculture and Irrigation)	Director (Administrative Intelligence)	---	1	1" ;
	(If) under the heading "GRADE II—JOINT DIRECTOR (Rs. 1500-60-1800) :—				

(a) in item 2, after sub-item (ii) and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"(iii)	Directorate General of Mines Safety, Dhanbad. Joint Director of Mines Safety (Statistics)	—	1	1"	
	(b) in the entries in column 3 against sub-item (ii) of item 6, for the words "Joint Director", the words "Deputy Adviser" shall be substituted ;				
	(III) under the heading "GRADE III—DEPUTY DIRECTOR [Rs. 1100 (6th year or under)-50-1600]" ;—				
	(a) in the entries against sub-item (i) of item 6, in columns 5 and 6 for the existing entries, the entries "3" and "4" shall respectively be substituted ;				

(b) for item 7 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7.	Department of Revenue (Ministry of Finance)				
	(i) Directorate of Inspection (Research, Statistics and Publication)	Statistician (Income-tax)	1	—	1
	(ii) Directorate of Statistics and Intelligence (Customs and Central Excise)	Senior Research Officer	1	—	1"

(c) for item 14 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"14.	Department of Family Welfare (Ministry of Health and Family Welfare)	Statistical Officer		1	1
		Senior Research Officer	1	1	2
		Market Research executive	1	—	1"

(d) in item 19, for sub-item (ii) and the entries relating thereto, the following sub item and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"(ii)	Intelligence Bureau	Senior Research Officer	1	1	2"

[F. No. 12011/4/79-ISS]
P.G. LELE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 1979

सांकां. 855.—भारतीय प्रशासनिक सेवा(भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अधिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संघीय सेवा आयोग तथा नागालैंड सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पबोप्रति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इस विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (पबोप्रति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1979 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (पबोप्रति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1955 की अनुसूची के कालम 3 में नागालैंड से सम्बन्धित प्रविष्टियों में "विकास आयुक्त और सचिव, नियोजन और सामुदायिक विकास" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जावगी, अर्थात् :—
"कृषि उत्पादन आयुक्त"

[सं. 11039, 11/78-प्रशास. (1)]
दिनेश चन्द्र मिश्र, उप-सचिव

New Delhi, the 8th June, 1979

G.S.R. 855.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, after consultation with the Union Public Service Commission and the Government of Nagaland hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 in the entries relating to 'Nagaland' in Column 3 for the entry "Development Commissioner-cum-Secretary, Planning and Community Development", the following entry shall be substituted, namely :—

"Agriculture Production Commissioner"

[No. 11039, 11/78-AIS (I)]
D. C. MISRA, Dy. Secy.

बिजल मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1979

सा० का० नि० 856.—सर्विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एवम् द्वारा इण्डिया मिक्सीरिटी प्रेस (श्रेणी I और श्रेणी II के पद) भरती नियमावली, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1 (1) इन नियमों को इण्डिया मिक्सीरिटी प्रेस (श्रेणी I और श्रेणी II के पद) भरती (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1979 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2 इण्डिया मिक्सीरिटी प्रेस (श्रेणी I और श्रेणी II के पद) भरती नियमावली, 1968 की अनुसूची में "सहायक निबंधक, स्टाम्प" के पद में संबंधित मद 8 तथा उगमे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
'S सहायक निबंधक, स्टाम्प'	1	भाग 2 केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (गति- पत्रित) गैर आरक्षण	650-30-740-35- 810-40 ग्रेड 35- 880-40-1000-20 ग्रेड -40-1200 रुपए	प्रवरण	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के संबंध में 35 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)	अनिवार्य : (1) मान्यता प्राप्त विद्यालय से डिग्री प्राप्त या समकक्ष। (2) सरकारी विभाग या सरकारी निकाय या किसी प्रसिद्ध वाणिज्यिक संगठन के भण्डार प्रशासन/प्रबंध में पर्यवेक्षक के रूप में काम करने का 3 वर्षों का अनुभव।
					टिप्पणी : यह सीमा निर्धारित करने के लिए अन्तिम तारीख बही होगी जो भारत स्थित अभ्यर्थियों में (अण्डमान, और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप स्थित अभ्यर्थियों से भिन्न) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी)	टिप्पणी : अन्यथा सुशिक्षित अभ्यर्थियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अर्हताओं में दी जा सकती है।
						टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से अनुभव संबंधी अर्हताओं के लिए छूट दी जा सकती है। यदि चुनाव के किसी भी दौर में संघ लोक सेवा आयोग की राय में इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के मिलने की सम्भावना न हो।
						वांछित : अधिकों में काम लेने का अनुभव

8	9	10	11	12	13
जी नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति के द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के द्वारा तथा दोनों प्रकार से भरती नहीं करने पर सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति : प्रवरण अधिकारी तथा मुख्य लेखापाल जिसके न होने पर केन्द्रीय स्टाम्प भण्डार के लेखापाल जिसकी इस पद-भ्रम में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर तीन वर्षों की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार	विभागीय पदोन्नति समिति बर्ग 'अ' जिसमें बिजल मंत्रालय के उप सचिव पद से ऊंचे पदों वाले अधिकारी होंगे।	सीधी भरती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

8 9 10 11 12 13

जो समकक्ष पद पर है उप-
युक्त होगा कि उसे भुण्डार
प्रबन्ध का अनुभव हो ।
(सामान्यता प्रतिनियुक्ति की
अवधि तीन वर्षों से अधिक
नहीं हो) ।

[म० एफ० 5 (45)/75-करेंसी]

ए० के० मन्त्रीका, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 2nd May, 1979

G.S.R. 856.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Security Press (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Security Press (Class I and Class II posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Security Press (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, for item 8 relating to the post of "Assistant Controller of Stamps" and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"8. Assistant Controller of Stamps.	1	General Central Service Group 'B' (Gazetted) Non-Ministrial.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 30 years (relaxable upto 35 years for Government servants. NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (1) Degree of a recognised University or equivalent. (2) 3 years' experience in Stores administration/management, in a supervisory capacity in a Government Department or a public body or Commercial organisation of repute. NOTE : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. NOTE 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

Experience of handling labour.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Sectional Officer and Head Accountant failing which Accountant of the Central Stamps Store with 3 years service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers under the Central Government holding analogous posts and preferably having experience of Stores management. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Departmental Promotion Committee Group 'B' comprising of three Officers of the Ministry of Finance of or above the rank of Deputy Secretary.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment."

[No. F. 5(45)/75-Cy.]

L. K. MALHOTRA, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1979

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां. कां. निं. 857—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में उपावह मार्गों में, क्रम सं० 1 के, स्तम्भ (2) में —

- (क) विद्यमान प्रविष्टि "तन्तु सभी प्रकार के जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)" की प्रथम अनुसूची की, मद 18-ड के अन्तर्गत आते हैं के स्थापन पर, "ग्राम मुलासी करने हुए तन्तु" प्रविष्टि रखी जाएगी,
- (ख) इस प्रकार रखी गई पूर्वोक्त प्रविष्टि के पश्चात् "सन तन्तु और रेगी तन्तु" प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी,
- (ग) विद्यमान प्रविष्टि "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1)" की प्रथम अनुसूची की मद 22 क के अधीन आने वाले "टेक्सटाइल वस्त्र" प्रविष्टि के स्थान पर "सन वस्त्र रेगी वस्त्र" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं० 211/79 के० उ० मं० 261/18 एफ/1/79 के० उ० मं०-8]
एन० सी० जैन, अवसर सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd June, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 857.—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in serial No. 1, in column (2)—

- (a) for the existing entry "Yarn, all sorts, falling under Item 18E of the First Schedule to the Central Excises

and Salt Act, 1944 (1 of 1944)", the entry "Non-cellulosic spun yarn" shall be substituted;

(b) after the aforesaid entry so substituted, the entry "Flax yarn and ramie yarn" shall be inserted;

(c) for the existing entry "Textile fabrics falling under Item 22AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)", the entry "Flax fabrics, ramie fabrics" shall be substituted.

[No. 211/79-C.F.-F. No. 261/18F/1/79-CX8]

N. C. JAIN, Under Secy

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

बंबई, 30 मई, 1979

केन्द्रीय कार्यालय

सां.कां.निं. 858.—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसरण में रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि दिनांक 42, नवम्बर 1977 की अधिसूचना मध्याह्नक 48, 77-आरबी की निम्न प्रकार संशोधित किया जाएगा, अर्थात्:—

खंड (क) के बाद निम्नलिखित खंड (कक) समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) जो किसी अनिवासी द्वारा भारत में धारित स्थावर संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय को स्रोतक हो और रूपों में की गयी हो, बशर्ते कि भारत में विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रहने वाले अनिवासी के आने में ऐसी आय की प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर रुपये जमा किये जाए और बशर्ते की ऐसी सम्पत्तिया उक्त अधिनियम की धारा 31 के अनुसार जहां वह लागू हो, धारित हो।"

[सं० एफ० ई० आर० ए० 56/79-आरबी]

पी० आर० नागिया, उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

Bombay, the 30th May, 1979

Central Office

G.S.R. 858.—In pursuance of sub-section (1) of section 9 of Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973),

the Reserve Bank hereby directs that the notification No. FERA. 48/77-RB dated the 24th November, 1977, shall be amended as follows viz :

After clause (a) the following clause (aa) shall be inserted namely :—

“(aa) made in rupees representing income from immovable property held in India by a non-resident provided that the rupees are credited within two months from the date of receipt of such income to the account of the non-resident with an authorised dealer in foreign exchange in India and provided that such properties are held in accordance with section 31, of the said Act, where applicable.”

[No. F.E.R.A. 56/79-RB]

P. R. NANGIA, Dy. Governor

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 6th June, 1979

Central Boilers Board

G.S.R. 859.—Whereas certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) at page 2896 of the Gazette of India Part II-Section 3-Sub-section (i) dated the 23rd December, 1978 under the notification of the Government of India in

the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Central Boilers Board) No. G.S.R. 1510 dated the 28th November, 1978 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 10th February, 1979.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 26th December, 1978.

And whereas no objections or suggestions have been received;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Seventh Amendment) Regulations, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 316 for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) The stop valve connecting the boiler or super heater to the steam-delivery pipe shall be located as near the out-let from the final super-heater header as is convenient and practicable or, in case of boilers without super-heaters as close as practicable to the drum. Where two or more boilers are connected with a steam receiver or any other vessel, a steam stop valve shall be fitted between the boiler and such receiver or Vessel.”

[F. No. 6(16)/74-Boilers.]

S. C. DEY, Secy.

उर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1979

सां० का० नि० 860—संश्लेषण की धारा 309 के परन्तु द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की दिनांक, 20 सितम्बर 1963 की अधिसूचना संख्या सां०सां० नि० 1530 के अतिरिक्त में, राष्ट्रपति एतद्वारा उर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) में हुए “ग” के कुछ पदों की १३ के तरीके को विनिमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, यथा :—

1. संश्लेषण नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों को कोयला विभाग (शक्तियों की सहायक) शर्ती नियम, 1979 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वर्तमानता :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उम्मा वर्तमानता इन नियमों के माध्यम से अनुसूची के कालम 2 से 4 में लिखे अनुसार होगा।

3. शर्ती का तरीका, आयुसीमा और अन्य योग्यताएं :—उक्त पद की शर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उसमें संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में लिखे अनुसार होंगी।

4. योग्यताएं :—वह व्यक्ति—(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का संविदा किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने एक पति पत्नी के जोड़ित रहने हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का संविदा किया हो, उक्त पद पर नियमित का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु इस संबंध में केन्द्रीय सरकार यदि इस बात में सन्तुष्ट हो जाती है कि ऐसे विवाह की संबंधित व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमति है और ऐसे विवाह के अन्य आधार मौजूब हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. छूट देने का अधिकार :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों की व्यवस्था में छूट देना आवश्यक अथवा समुचित है वहां केन्द्रीय सरकार, लिखित रूप से कारण बताते हुए, आदेश द्वारा उक्त छूट दे सकती है।

6. अपवाद :—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों के संबंध में जो व्यवस्था अपेक्षित है उस पर इन नियमों की किसी व्यवस्था का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची						
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वर्तमान	यदि पद है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी सहायक	दो	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप "ग" अग्रज-पत्र अतिरिक्त वर्गीय	०० 425-15-500-दोरो०-15-560-20-700	लागू नहीं	20 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्म-चारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट)	सांख्यिकी अथवा गणित अथवा विषय के साथ डिग्री। वांछनीय : सांख्यिकी आंकड़े एकत्र करने और उनका सारणीकरण करने का दो अनुभव।
सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नत व्यक्तियों पर लागू होंगी।	परिक्षा अथवा यदि कोई हो।	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा, पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने जायें व्यक्ति का प्रतिष्ठान	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा की जाती है तो वे ऐसे जिनसे पदोन्नति की जाएगी	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा, और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति : ऐसे व्यक्ति जो समान पदों पर अथवा उच्च श्रेणी लिपिक अथवा समकक्ष पद पर काम कर रहे हों और जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो, अथवा निम्न श्रेणी लिपिक जिनकी अपने ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा हो, और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1 निदेशक (प्रशासन) अथवा उप सचिव, (प्रशासन)—अध्यक्ष 2 अवर सचिव के दर्जे का एक अधिकारी जो उस व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य से परिचित हो जिनका/जिनका मूल्यांकन किया जाता है—सदस्य 3 भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग का ऐसा अधिकारी जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो —सदस्य 4 अवर सचिव (प्रशासन-I) —सदस्य	लागू नहीं	

[सं. ए० 12018/1/78-प्रशा-I]

के० सीतारामन, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 25th May, 1979

G.S.R. 860.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the notification of the erstwhile, Ministry of Mines & Fuel No : G. S. R. 1530 dated the 20th September, 1963, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' post in the Ministry of Energy (Department of Coal), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Coal (Technical Assistants) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of 233 GI/79—2

prev attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special Categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of the posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruitment	Educational and other Qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Technical Assistant	Two	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not applicable	Between 20 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years.	Degree with statistics or mathematics or economics as one of the subjects. Desirable : 2 years experience regarding collection and tabulation of statistical data.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/Transfer from which promotion to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 Years	By deputation failing which by direct recruitment.	Deputation : Persons working in analogous posts or posts of Upper Division Clerks or equivalent with 5 years regular service in the grade or Lower Division Clerks with 10 years regular service in the grade and possessing the qualification prescribed for direct recruitment. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	1. Director (Adm. or Dy. Secy.) (Admn.)—Chairman. 2. An Officer of the rank of Under Secretary who may be familiar with the work of the person(s) to be assessed—Member. 3. An Officer not lower than the rank of Under Secretary from another Ministry/Department to the Government of India—Member. 4. Under Secretary (Adm. I)—Member.	Not applicable

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जून, 1979

सा० का० नि० 861.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं; अर्थात् :—

1 इन नियमों का नाम 'केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 1979' है।

2 ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में दूसरी अनुसूची के उपबन्ध-2 में क्रम संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

“टिप्पणी यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की गई कोई भी स्नात-कोत्तर चिकित्सा ग्रहणता जब 11 नवम्बर, 1978 को या इससे पहले प्रदान की गई हो तो वह एक मान्य चिकित्सा ग्रहणता होगी।”

[स० ए-12018/1/79-के० स्वा० सेवा-5]

रविन्द्र नाथ तिवारी, अधिसचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th June, 1979

G.S.R. 861.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Health Service Rules, 1963, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Health Service (Amendment) Rules, 1979.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Health Service Rules, 1963, in Annexure II to the Second Schedule, after Serial No. 16, the following Note shall be inserted, namely :—

“Note : Any post graduate medical qualification granted in the United Kingdom shall be a recognised medical qualification when granted on or before the 11th day of November, 1978.”

[No. A-12018/1/79-CHS 5]
R. N. TIWARI, Under Secy.**कृषि और संसाधन मंत्रालय**

(सिबाई विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1979

सा० का० नि० 862.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय जल और विद्युत आयोग (जल पक्ष) वर्ग 3 और वर्ग 4 पद (ग्रेम कैमरा एकक) भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम 'केंद्रीय जल आयोग समूह ग और घ पद (ग्रेम कैमरा एकक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979' है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय जल और विद्युत आयोग (जल पक्ष) वर्ग 3 और वर्ग 4 पद (ग्रेम कैमरा एकक) भर्ती नियम, 1972 (जिन्हें हमने इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में —

(1) “केंद्रीय जल और विद्युत आयोग (जल पक्ष) शब्दों और कोष्ठको के स्थान पर, जहाँ कहीं वे आए हैं, “केंद्रीय जल आयोग” शब्द रखे जाएंगे;

(2) “वर्ग 3 और वर्ग 4” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, जहाँ कहीं वे आए हैं, क्रमशः समूह “ग” और समूह “घ” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(3) उक्त नियम के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7 व्यक्ति-इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रयोगों के व्यक्ति के लिए उद्देश्य करना अपेक्षित है।”

(4) उक्त नियम की अनुसूची में, मद 6 का लोप किया जाएगा।

[स० 10/79/39/19/77-प्रशा०-1(स्था०-1)]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 31st May, 1979

G.S.R. 862.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water and Power Commission (Water Wing) Class III and Class IV posts (Press Camera Unit) Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water Commission Group C and D posts (Press Camera Unit) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Water and Power Commission (Water Wing) Class III and Class IV posts (Press Camera Unit) Recruitment Rules, 1972, (hereinafter referred to as the said rules).

(i) for the words “Central Water and Power Commission (Water Wing)”, wherever they occur, the words “Central Water Commission” shall be substituted;

(ii) for the words and figures “Class III and Class IV” wherever they occur, the words and letters “Group C and Group D”, shall respectively, be substituted;

(iii) for Rule 7 of the said rules the following rule shall be substituted, namely :

7. “Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard”;

(iv) in the Schedule to the said rules, item 6, shall be omitted.

[No. 10/79-39/19/77-Adm. I/Estt.I]

सा० का० नि० 863.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय जल और विद्युत आयोग वर्ग 3 और वर्ग 4 (सांख्यिकीय) पद भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम 'केंद्रीय जल आयोग समूह 3 और समूह 4 (सांख्यिकीय) पद भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979' है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग, वर्ग 3 और वर्ग 4 (सांख्यिकीय पद भर्ती नियम, 1972 (जिन्हें हमने आगे उक्त नियम कहा गया है) में,—

(1) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“7 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा हम सबध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्ति के लिए उपबध करना अपेक्षित है।”

(2) उक्त नियम की अनुसूची में, मब 3 का लोप किया जाएगा।

[सं० 9/79-39/19/77-प्रशा०-1/स्था०-I]

G.S.R. 863.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Cen-

tral and Power Commission Class III and Class IV (Statistical) Posts Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water Commission Group C and D (Statistical) Posts Recruitment (2nd Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Water and Power Commission Class III and Class IV (Statistical) Posts Recruitment Rules, 1972, (hereinafter referred to as the said rules) :

(a) for rule 7 the following rule shall be substituted, namely :—

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(ii) in the Schedule to the said rules, item 3 shall be omitted.

[No. 9/79-39/19/77-Adm. I/Estt.-I]

सा० का० मि० 864.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (जल पक्ष) (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1964 और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (जल पक्ष) वर्ग 4 पद भर्ती नियम, 1971 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग में वर्ग 4 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल आयोग (समूह 4 पद) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि :—उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण पर जाने का दायित्व :—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन अपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा; परन्तु होमगार्ड का कमाण्डेंट जनरल प्रशिक्षण स्तर के अनुसार उसके निष्पादन का ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण की ऐसी अवधि को घटा कर 2 वर्ष कर सकेगा।

6. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुश्रुत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को हम नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें देखबद्ध करके तथा संच लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आवेग द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियाँ और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

(नियम 2, 3 और 4 देखिए)

केन्द्रीय जल आयोग में समूह 'घ' पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1 पुस्तकालय परिचर	3	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराज-पश्चित	310-1-226-द० रो० 4-250-द० रो० 5-290 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2 कनिष्ठ गेस्टेटर प्रबालक	2	-यथोक्त-	210-4-250-द० रो० 5-270 रु०	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
3 अभिलेख छटाई-कार	1	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
4 प्रयोगशाला परिचर	5	-यथोक्त-	210-4-226-द० रो० 1-250-द० रो० 5-290 रु०	-यथोक्त-	18 से 25 वर्ष तक (सरकारी सेवाओं के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	अनिवार्य मैट्रिक वाछनीय किसी प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव।
5 दफतरी	27	-यथोक्त-	200-3-206-4-234-द० रो० 1-250 रु०	-यथोक्त-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं

परिक्षा की अधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे हागी या प्राप्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियां द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी मरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्राप्ति द्वारा	दफतरी/जमादार, जिसने उस श्रेणी में नियमित सेवा कर ली है और जो अग्रेजी लिख पढ़ सकता है।	1 अवर सचिव, (II) —अध्यक्ष 2 अनुभाग अधिकारी (ग्रानो-VIII)—सदस्य-पक्ष 3 एक और अनुभाग अधिकारी, सदस्य के रूप में।	लागू नहीं होता
नहीं	3 वर्ष	-यथोक्त-	दफतरी/जमादार, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा कर ली है और जिसे अनुलिपित का उपयोग और प्रबालन का कार्यकरण ज्ञान है।	-यथोक्त-	-यथोक्त-
नहीं	4 वर्ष	-यथोक्त-	दफतरी/पेकर, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा कर ली है।	-यथोक्त-	-यथोक्त-
नहीं	2 वर्ष	प्राप्ति द्वारा जिसके नहीं होने पर सीधा भर्ती द्वारा।	अनुसंधान खलासी जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा कर ली है।	-यथोक्त-	-यथोक्त-
नहीं	2 वर्ष	प्राप्ति द्वारा	अपरासी/वैदेशयात्रक जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा कर ली है।	-यथोक्त-	-यथोक्त-

1	2	3	4	5	6	7
6. जमादार	5	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित	200-3-206-4-234- द० रो०-4-250 र०	अवयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7. भांडागारिक	1	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
8. प्रधान सफाई वाला	1	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
9. अनुसंधान खलासी	17	-यथोक्त-	-यथोक्त-	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	मिडिल स्तर उत्तीर्ण
10. पैकर	1	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण और पैक करने तथा प्रेषण का ज्ञान।
11. परिवार (आफ सैट मशीन)	1	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण और आफ-सैट मशीन को समुचित रूप में सफाई करने, उसमें तेल आदि डालने आदि का ज्ञान।
12. मददगार	3	-यथोक्त-	196-3-220-द० रो० 3-232 र०	-यथोक्त-	-यथोक्त-	मिडिल स्कूल उत्तीर्ण
13. क्लीनर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित	196-3-220-द० रो० 3-232 र०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	अनिवार्यः मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण। बांछनीय। किसी माटोमोबाइल कर्मशाला में या किसी परिवहन कम्पनी में क्लीनर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
14. फराश	15	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	लागू नहीं होता
15. चौकीदार	16	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	18 से 25 वर्ष	-यथोक्त-
16. सफाई वाला	22	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
8	9	10	11	12	13	
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	अपरासी/सवेशाहक जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा कर ली है।	1. अवर सचिव (II) 2. अनुभाग अधिकारी (प्रशा० VIII) मदस्य सचिव; और 3. एक और अनुभाग अधिकारी, मदस्य के रूप में	लागू नहीं होता।	
नहीं	2 वर्ष	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
नहीं	2 वर्ष	-यथोक्त-	सफाईवाला, जिन्होंने उस श्रेणी में लगातार 3 वर्ष सेवा कर ली है।	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
-यथोक्त-	2 वर्ष	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
-यथोक्त-	2 वर्ष	यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
-यथोक्त-	2 वर्ष	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	लागू नहीं होता	1. अवर सचिव (II)—अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी (प्रशा० VIII)—मदस्य और 3. एक और अनुभाग अधिकारी—मदस्य के रूप में	लागू नहीं होता	
नहीं	2 वर्ष	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
लागू नहीं होता	2 वर्ष	-यथोक्त-	-यथोक्त-	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (सही संयोजन उप-वर्णित किया जाए)	-यथोक्त-	-यथोक्त-
लागू नहीं होता	2 वर्ष	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
			स्थानान्तरण			

1	2	3	4	5	6	7
17. रुदेणवाहक	16	माधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' श्रेणीपक्षित	196-3-220 द० री०- 3-232 रु०	नागू नहीं होता।	18-25 वर्ष	मिडिल उत्तीर्ण
18. चपरासी	16	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-	-यथोक्त-
1. सरकारी सेवकों की वंश में 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। 2. टिप्पण :--अर्ती नियम के स्तब 6 में वर्णित आयु सीमा का अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया हो।						
8	9	10	11	12	13	
स्थानान्तरण						
नागू नहीं होता	2 वर्ष	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा।	सफाईवाला, फराश और चौकी- दार में, जिन्होंने अपनी श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा कर ली है और जो प्रारम्भिक रूप से साक्षर है तथा अंग्रेजी या हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की योग्यता रखते हैं। इसका अवधारण एक साधारण परीक्षा लेकर किया जाएगा।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति मिति (महो सयोजन उपवर्णित किया जाए)	नागू नहीं होता	
स्थानान्तरण.						
नागू नहीं होता	2 वर्ष	-यथोक्त-	चौकीदारों, फराशों और सफाई- वालों की श्रेणी में, जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में 5 वर्ष सेवा कर ली है और जो प्रारम्भिक रूप से साक्षर है और अंग्रेजी या हिन्दी या प्रादेशिक भाषा पढ़ने की योग्यता रखते हैं। इसका अवधारण एक साधारण परीक्षा लेकर किया जाएगा।	नागू नहीं होता	नागू नहीं होता	

[सं० ५/79-गफ० 39/19/77-प्रशा०-1 स्थापना-2]

टी० रमानाथन, चक्रर सचिव

G.S.R. 864.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supercession of the Central Water and Power Commission (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1964 and the Central Water and Power Commission (Water Wing) Class IV Posts Recruitment Rules, 1971, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group D posts in the Central Water Commission, namely :—

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Water Commission (Group D posts) Recruitment Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
3. Number, Classification and Scale of pay.—The number of posts their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
4. Method of Recruitment, age-limit, qualification and other matters.—The method of recruitment to the said posts, age-limit qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.
5. Liability to undergo training as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as peon under these rules shall undergo training as Home Guards for a period of 3 years provided that the Commandant General,

Home Guards may having regard to the performance of and standard of training, reduce such period to 2 years.

6. Disqualifications :—No person

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the above posts :—

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party so doing exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient not to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age of direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
1. Library Attendant	3	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	Non-Selection	Not applicable	Not applicable.
2. Junior Gestetner Operator	2	-do-	Rs. 210-4-250-EB-5-270	-do-	-do-	-do-
3. Record Sorter	4	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
4. Laboratory Attendant	5	-do-	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	-do-	Between 18-25 years (Relaxable upto 35 years for Govt servants)	Essential : Matriculation Desirable : 1 year's experience in a Laboratory.
5. Daftry	27	-do-	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	-do-	Not applicable	N.A.
6. Jamadar	5	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply of promotion	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct rectx. or by promotion or by deputation transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectx. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
No	2 years	By promotion	Daftry/Jamadar who has rendered 3 years' regular service in the grade and are able to read & write English.	1 U.S. (II) Chairman, 2. S.O. (Adm. VIII) Member Secretary and 3. One more S.O. as—Member	Not applicable	
-do-	-do-	-do-	Daftry/Jamadar who has rendered 3 years' regular service in the grade and has working knowledge of handling & operating the duplicating machine.	-do-	-do-	
-do-	-do-	-do-	Daftry/Packer who has rendered 3 years' regular service in the grade.	do-	-do-	
No	-do-	By promotion failing which by direct recruitment	Res. Khalasi who have rendered 8 years' regular service in the grade.	1. US (II) Chairman, 2. S.O. (Adm. VIII) Member-Secretary. and 3. One more S.O. as —Member	Not applicable	
-do-	-do-	By promotion	Peons/Messengers, who have rendered 3 years' regular service in the grade.	-do-	-do-	
-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6	7
7. Warehouseman	1	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Non-Selection	Not applicable	N.A.
8 Head Safaiwala	1	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
9 Research Khalasi	17	-do-	-do-	Not applicable	Between 18-25 years (Relaxable upto 35 years for Government servants.)	Middle school standard pass
10 Packer	1	-do-	-do-	-do-	-do-	Middle School standard pass with knowledge of packing & despatching.
11 Attendant (Offset-Machine)	1	-do-	-do-	-do-	-do-	Middle School standard pass knowledge of upkeeping of offset-machinery by properly cleaning, oiling etc.
12 Helper	3	-do-	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	-do-	-do-	Middle School standard pass.
13 Cleaner	1	-do-	-do-	-do-	-do-	Essential : -do- Desirable : One years' experience in an automobile workshop or as cleaner in a transport company.
14. Farash	15	-do-	-do-	-do-	-do-	Not applicable.
15 Chowkidar	16	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
16. Safaiwala	22	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
17. Messenger	16	-do-	-do-	-do-	-do-	Middle pass.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion	Peons/Messengers, who have rendered 3 years' regular service in the grade.	1. US (II), Chairman 2. S.O. (Adm. VIII) Member-Secy. & 3. one more S.O. as—Member	Not applicable
-do-	-do-	do.	Safaiwala who have rendered 3 years' continuous service in the grade.	-do-	-do-
Not applicable	do-	By direct recruitment	Not applicable	-do-	-do-
-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
No.	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
N A.	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
-do-	-do-	75% by direct recruitment & 25% by transfer.	Transfer : From Safaiwala, Farash & Chowkidar who have rendered not less than 5 years' service in the respective grade & who possess elementary literacy & ability to read English or Hindi or regional language which will be determined by a simple test.	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6	7
18. Poen	169	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Ra. 196-3-220- HB-3-232.	Not applicable	18—25 years 1. Relaxable upto 35 years in case of Govt. servants. 2. Note : The crucial date for determining the age limit men- tioned in Col. 6 of the Recruit- ment Rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candida- tes in India (other than An- daman & Nico- bar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the ap- pointments to which are made through the employment ex- change the cru- cial date for de- termining the age limit in each case, will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to sub- mit the names.	Middle School Standard pass.

* Applicable for all parts

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	75% by direct recruitment & 25% by transfer.	Transfer from the grade of Chowkidar, Farash & Safaiwala who has render- ed 5 years service in the res- pective grade and who possesses elementary literacy & give proof of ability to read English or Hindi or regional language which will be determined by a simple test.	Not applicable	Not applicable

[No. 8/79-39/19/77-Adm. I/Estt. I]

D. RANGANATHAN, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 7 जून, 1979

सा० भा० वि० 865—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, करीदाबाद में समूह "ग" के कुछ पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, करीदाबाद (श्रेणी "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये पञ्चपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम हमारे उपाखण्ड अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो नियमों से उपाखण्ड अनुसूची के स्तंभ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 से 14 में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवन होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य परकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूब है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा मंडल लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी बर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकासे गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्रम पत्र का नाम सं०	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अन्य पद अथवा अनुसूचित पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. आशुलिपिक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ग" (अराज-पत्रित) असिपिकवर्गीय	425-15-500-५० २००-15-560-20- 700-५०२००-25- 800 रुपये	लागू नहीं होता	25 वर्ष (सरकारी सेवकों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक : 1. मैट्रिक अथवा समतुल्य अर्हता। 2. आशुलिपि में 120 शब्द प्रति-मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति।
2. लेखाकार	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ग" अराज-पत्रित) अल्लिपिकवर्गीय	425-15-500-५० २००-15-560-20- -700-५०२००-25- 800 रु० तथा 40 रु० प्रति माह विशेष वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
3. आशुलिपिक श्रेणी-3	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ग" (अराज-पत्रित) अल्लिपिकवर्गीय	330-10-380-५० २००-12-500-५०२००- 15-560-५०	लागू नहीं होता	25 वर्ष (सरकारी सेवकों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक : 1. मैट्रिक अथवा उसके समतुल्य अर्हताएं 2. आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट गति।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की वशा में लागू होगी या नहीं	परिक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	----------------------------	---	---	---	---

9	10	11	12	13	14
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर प्रोन्नति द्वारा कृषि विभाग में और इसके अधीन प्राशुलिपिक (श्रेणी-2) से केन्द्रीय उर्बरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद में ऐसे प्राशुलिपिकों (श्रेणी-iii) पर भी जिन्होंने उस में 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है, अन्य प्राप्ति के साथ प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है और उसके चयन की दशा में उसकी नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा की गई जाएगी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	श्रेणी "ग" की विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उपायुक्त (उर्बरक) —अध्यक्ष 2. कार्यालय अध्यक्ष, केन्द्रीय उर्बरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद —सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पादप रक्षण, संगरोध तथा संवर्धन निदेशालय, फरीदाबाद— —सदस्य 4. अवर सचिव (एफ-2), कृषि विभाग—सदस्य सचिव	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान से रोकड़ तथा लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों तथा केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के श्रेणी "ग" प्राशुलिपिकों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और कृषि विभाग में लेखाकारों तथा कनिष्ठ लेखाकारों (जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो) के संवर्ग में से 1 (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	श्रेणी "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. उपायुक्त (उर्बरक) —अध्यक्ष 2. कार्यालय अध्यक्ष, केन्द्रीय उर्बरक नियंत्रण प्रयोगशाला—सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पादप रक्षण, संगरोध तथा संवर्धन निदेशालय —सदस्य 4. अवर सचिव (उर्बरक)-(2) कृषि विभाग— —सदस्य सचिव	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. प्रयोगशाला सहायक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ग" (अराज-पत्रित) अल्पिकवर्गीय	260-8-300-२००-०-१४-१४०-१०-१४०-२००-१०-४३० ०	लागू नहीं होता	25 वर्ष सरकारी आवश्यक सेवाओं के लिए 35 वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है।	1 विज्ञान में मैट्रिक 2 विज्ञान-प्रयोगशाला में कार्य करने या एक वर्ष का अनुभव।
5. ड्राइवर चालक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी "ग" (अराज-पत्रित) अल्पिकवर्गीय	280-6-290-२००-०-६-३२६-८-३६६-२० ०-८-३९०-१०-४०० ०	लागू नहीं होता	23 से 30 वर्ष तक (सरकारी सेवाओं के मामले में 35 वर्ष शिक्षित की जा सकती है।)	आवश्यक मोटर कार चलाने की विधि मान्य अनुज्ञापन तथा कम से कम 3 वर्ष का चलान अनुभव।
वांछनीय प्राठवी कक्षा उत्तीर्ण।						

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा कृषि विभाग के अधीन, प्रयोगशाला परिचर अथवा सहाय/समस्तुल्य पदों से (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी "ग" की विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे — 1. उपायुक्त (उर्बरक) —अध्यक्ष 2. कार्यालय अध्यक्ष केन्द्रीय उर्बरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद —सदस्य 3. मुख्य प्रशासन सदस्य अधिकारी, पादप रक्षण, संगरोध तथा संवर्धन निदेशालय फरीदाबाद —सदस्य 4. अवर सचिव, (उर्बरक-2), कृषि विभाग —सदस्य सचिव	लागू नहीं होता
हा	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	बालकों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले स्तर की वक्षता को ध्यान में रखते हुए पद के लिए उपयुक्तता निर्णीत करने के उद्देश्य से लिए गए बालन परीक्षण के आधार पर कृषि विभाग में तथा उसके अधीन काम करने वाले श्रेणी "क" के ऐसे कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा जिनके पास स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं हैं।	श्रेणी "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे — 1. उपायुक्त (उर्बरक) —अध्यक्ष 2. कार्यालय अध्यक्ष, केन्द्रीय उर्बरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद —सदस्य 3. मुख्य प्रशासन अधिकारी, पादप रक्षण संगरोध तथा संवर्धन निदेशालय —सदस्य 4. अवर सचिव (उर्बरक-2) कृषि विभाग-1 —सदस्य सचिव	लागू नहीं होता।

टिप्पण—1. भर्ती नियमों के स्तंभ 7 में उल्लिखित आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, अंशमान, नीकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

टिप्पण—2. जिन पदों पर नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी हों, उनके संबंध में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

[संख्या 10-20/77-एम० (फर्ट० प्ला०)]

प्रार० नारायणन, उप-सचिव

New Delhi, the 7th June, 1979

G.S.R. 865.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabad, under the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), namely:—

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabad, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply for recruitment to the posts are specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 6 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Powers to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Classifications of the posts	Scale of pay	Whether selection direct post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Stenographer (Grade II)	One	General Central Service Group, 'C' (Non-Gazetted Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.	Not applicable.	25 years (relaxable upto 35 yrs in the case of Government Servants)	Essential : 1. Matriculation or its equivalent qualification. 2. Shorthand speed of 120 words per minute and typing speed at 40 words per minute.
8	9	10	11	12	13		
Whether educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of apptt. made by promotion/transfer	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of promotion/deputation/transfer grade or source from which promotion/transfer/deputation to be made	Composition of D.P.C.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment		
Age—No, Educational qualification—Yes	2 years	By transfer on deputation/ promotion, failing which by direct recruitment.	By Transfer on deputation/ promotion from amongst Stenographers (Gr. II) in and under Deptt. of Agriculture. The Stenographer (Gr. III) in CFCL, Faridabad with five years' of regular service in the Grade shall be eligible for being considered alongwith other applicants for deputation and in the event of his selection his appointment shall be deemed to have been made on promotion. Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)	Group 'C' D.P.C. consisting of:— 1. Dy. Commissioner (Fert)— Chairman. 2. Head of Office, Central Fert. Control Lab., Faridabad— Member. 3. Chief Admn. Officer, Dte. of Plant protection Quarantine and storage. Faridabad— Member. 4. Under Secy. (F. II), Deptt. of Agriculture — Member-Secy.	Not applicable.		

		2	3	4	5	6	7	
2. Accountant.	One	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-23-800/- plus special pay of Rs. 40/- p. m.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	
3. Stenographer (Grade III)	One	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable.	25 years (Relaxable upto 35 yrs in the case of Government Servants)	Essential : 1. Matriculation or its equivalent qualification. 2. Short-hand speed of 80 words per minute and typing speed of 40 words per minute.		
		8	9	10	11	12	13	
Not applicable.		Not applicable.	By transfer on deputation		By transfer on deputation from among Assistants of CSS and Group C Stenographers of CSSS with Cash and Accounts training from the Institute of Sectt. Training and Management; also from the cadre of Accountants and Junior Accountants (with five years service in the grade) in Department of Agriculture. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).		Not applicable.	
Not applicable.		2 Years	By direct recruitment.		Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Commissioner (Fert)—Chairman 2. Head of Office, Central Fertilizer Control Laboratory—Member. 3. Chief Administrative Officer, Dte. of Plant Protection, Quarantine & Storage—Member. 4. Under Secretary (Part II), Department of Agriculture—Member-Secretary.		Not applicable.	
		1	2	3	4	5	6	7
4. Laboratory Attendant	One	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430	Not applicable	25 yrs (relaxable for Government servants upto 35 years)	Essential : 1. Matriculation with Science subject. 2. One year's experience of Working in Science Laboratory		
5. Driver	One	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not applicable	Between 23 to 30 years (relaxable upto 35 years in the case of Government servants).	Essential : Possession of valid driving licence for motor car and experience of driving for at least 3 years. Desirable : 8th standard pass.		

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By transfer on deputation falling which by direct recruitment.	By transfer on deputation from Laboratory Attendants or analogous/equivalent posts under Department of Agriculture (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)	Group 'C' Departmental promotion consisting of : 1. Deputy Commissioner (Fert) — Chairman. 2. Head of Office, Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabad — Member. 3. Chief Administrative Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad — Member. 4. Under Secretary (Fert II), Deptt. of Agriculture — Member Secretary.	Not applicable
Yes	2 years	By transfer falling which by direct recruitment.	By transfer from Group 'D' employees working in and under the Department of Agriculture on the results of a test in driving designed to adjudge the suitability for the post with reference to standards of competence considered essential for drivers and possessing the qualifications prescribed in column 8.	Group 'C' D.P.C consisting of : 1. Deputy Commissioner (Fert) — Chairman. 2. Head of Office, Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabad — Member. 3. Chief Administrative Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage — Member. 4. Under Secretary (Fert II), Department of Agriculture — Member Secretary.	Not applicable

Note 1 — The crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 of the recruitment rules shall, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidate in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2.— In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

[No. 10-70/77-M(Fert. Plg.)]

R. NARAYANAN Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1979

सा० का० नि० 866.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारत मौसम विज्ञान विभाग (ग्रुप सी तथा 'ग्रुप डी') भर्ती नियम, 1971 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

- (i) इन नियमों को भारत मौसम विज्ञान विभाग (ग्रुप सी तथा ग्रुप डी) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 कहा जा सकता है।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (ग्रुप सी तथा ग्रुप डी) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में :—

मैकेनिक ग्रेड 1 के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 18 के सामने कालम नं० 10 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(क) 75% बरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पब्लिक द्वारा।

(ख) 25% सरकारी ट्रेड टेस्ट के आधार पर चयन द्वारा पब्लिक द्वारा (क) तथा (ख) के अनुसार न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा।

[सं० ई० (2) 109/03 (एग० पी० एम०)/77-एम ई सी एन]
एम० के० दाग, उपसहाय्यक (प्रशासन तथा स्टोर्स)

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

(India Meteorological Department)

New Delhi, the 11th June, 1979

G.S.R. 866.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Meteorological Department (Group C and Group D) Recruitment Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the India Meteorological Department (Group C and Group D) Recruitment (second amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Meteorological Department (Group C and Group D) Recruitment Rules, 1971,—

against serial number 18, relating to the post of Mechanic Grade I, for the entries in Column 10, the following entry shall be substituted, namely :—

(a) 75 per cent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness,

(b) 25 per cent by promotion by selection on the basis of a qualifying trade test.

Filling (a) and (b), by direct recruitment.

[No. E(2)109/03(SPS)/77-Mech.]

S. K. DAS, Dy. Director General (Admn. & Stores)

नौचरान और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 8 जून, 1979

सां. कां. निं. 867.—केन्द्रीय सरकार, प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय दीपचर सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सरकार दीपचर सलाहकार समिति संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय दीपचर सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1978 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के अंत में "किन्तु इसे 6 मास की प्रतिरिक्त अवधि तक या जब तक नई समिति का पुनर्गठन नहीं हो जाता, उसमें से जो भी पूर्वतर हो, बड़ाया जा सकेगा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 5 का शेष किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 9 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु संबद्ध सदस्य को यथा अनुव्याप्त रूप में तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्यवाई के संबंध में सुने जाने का व्यक्तिगत अवसर नहीं दे दिया जाता।"

5. उक्त नियमों के नियम 10 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यथास्थिति, कोई भी ऐसा निरुपेक्ष या सेवा की समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबद्ध निकाय या संयम को प्रस्तावित कार्यवाई के संबंध में सुने जाने का व्यक्तिगत अवसर नहीं दे दिया जाता।"

[एलपीएस 33/74-एम टी]

एम० डी० मल्होत्रा, अधर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 4th June, 1979

G.S.R. 867.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 3 of the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said rules), the words "extendable upto a further period of 6 months or till the new Committee is reconstituted, whichever is earlier" shall be inserted at the end.

3. Rule 5 of the said rules shall be omitted.

4. In rule 9 of the said rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that no such removal as contemplated shall be made except after giving a reasonable opportunity to the concerned member of being heard on the proposed action."

5. In rule 10 of the said rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that no such suspension or termination, as the case may be, shall be made except after giving a reasonable opportunity to the concerned Body or Association of being heard of the proposed action."

[LPL-33-74-MT]

N. D. MALHOTRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 1979

सां. कां. निं. 868.—राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण पोत 'राजेन्द्र', 'भद्रा', 'मेखला', और 'नौलक्षी', (श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों के लिए भर्ती) नियम, 1959 में संशोधन करने के लिए और नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण पोत 'राजेन्द्र', 'भद्रा', 'मेखला', और 'नौलक्षी', (श्रेणी I तथा श्रेणी II पदों के लिए भर्ती) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण पोत 'राजेन्द्र', 'भद्रा', 'मेखला', और 'नौलक्षी', (श्रेणी I तथा श्रेणी II के पदों के लिए भर्ती) नियम, 1959 की अनुसूची में,

(1) चिकित्सा अधिकारी, प्रशिक्षण पोत, 'राजेन्द्र' के पद सम्बन्धी क्रम सं० 8 और तत्संबंधी प्रविष्टियां हटा दी जायें।

[सं० 21-एम० टी० (37)/86]

New Delhi, the 8th June, 1979

G.S.R. 868.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Training Ships

'Rajendra', 'Bhadra', 'Mekhala' and 'Naulakshi' (Recruitment to Class I and Class II Posts) Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Training Ships 'Rajendra', 'Bhadra', 'Mekhala' and 'Naulakshi' (Recruitment to Class I and Class II Posts) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Training Ships 'Rajendra', 'Bhadra', 'Mekhala' and 'Naulakshi' (Recruitment to Class I and Class II Posts) Rules, 1959 ;

(i) Serial No. 8 relating to the post of Medical Officer, F. S. Rajendra, and the entries relating thereto shall be omitted.

[21-MT(37)/66]

सा० का० नि० 869—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रुप 'ए' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) उन नियमों का नाम ग्रुप 'ए' राजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ग्रुप 'ए' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में,

प्राध्यापक टी० एस० राजेन्द्र और इंजीनियर अधिकारी (कनिष्ठ) टी० एम० 'नौलक्षी' के पदों के सामने, स्तम्भ 12 की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

"ग्रुप 'ए' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)

- | | |
|---|---------|
| 1. नौवहन महानिदेशक | अध्यक्ष |
| 2. समुक्त सचिव, नौवहन, नौवहन और परिवहन मंत्रालय | सदस्य |
| 3. नौवहन महानिदेशालय के प्रशासन का काम देखने वाले निदेशक या उप सचिव | सदस्य"। |

[21-गम० टी० (37)/66]

बी० नटराजन, अवर सचिव

G.S.R. 869.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Group 'A' Gazetted Posts Recruitment Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Group 'A' Gazetted Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Group 'A' Gazetted Posts Recruitment Rules, 1978, against the post of Lecturer, T. S. 'Rajendra' and Engineer Officer (Junior), T.S. "Naulakshi", in column 12, for the entry, the following entry shall respectively be substituted, namely :—

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation of direct recruits).

1. Director General of Shipping

Chairman

2. Joint Secretary incharge of Shipping, Ministry of Shipping and Transport

Member

3. Director or Deputy Secretary dealing with the administration of Directorate General of Shipping.

Member".

[21-MT(37)/66]

B. NATARAJAN, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 मई, 1979

सा० का० नि० 870—संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा डाक एवं तार (तार ओवरसीयर) भर्ती नियम 1975 के संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. (1) ये नियम डाक एवं तार (तार ओवरसीयर) भर्ती संशोधन नियम, 1975 कहलाये जायेंगे।

(2) ये नियम गणकारी राजपत्र में उनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 3 के अन्तर्गत डाक एवं तार (तार ओवरसीयर) भर्ती नियम, 1975 में निम्नांकित प्रविष्टियों शामिल की जाएगी, यथा :—

"भर्ती नियमों की सम्मिलित करते हुए अनुसूची में निहित किसी भी विषय के बावजूद सरकार अन्य यूनिटों में समान काष्ठ के कर्मचारियों को उनके पुनर्गठन अथवा किसी अन्य प्रशासनिक कारणों के लिए नियुक्त कर सकती है और उन पदों पर उनकी नियुक्ति उस तारीख में मानी जाएगी जिस से वे अपनी मूल भर्ती यूनिटों में ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए थे।"

3. अक्षरों में संशोधित उक्त नियमों के नियम 6 की दूसरी पंक्ति में आरक्षण शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे :—

"आयु सीमा में शिथिल"

4. उक्त भर्ती नियमों की अनुसूची के कालम 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी यथा :—

"विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित अधिकारों सम्मिलित होंगे :—

(1) प्रथम समयमान तार परियात सेवा के ग्रुप 'ए' अधिकारी।

(2) तार परियात सेवा के ग्रुप 'बी' अधिकारी

(3) समीपवर्ती डाक संचाल के अध्यक्ष द्वारा नामांकित डाक सेवा ग्रुप 'बी' अधिकारी।

[स० 14-5/76-गम० सी० जी०]

MINISTRY OF COMMUNICATION

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 30th May, 1979

G.S.R. 870.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Posts and Telegraphs (Telegraph Overseers) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Posts and Telegraphs (Telegraph Overseers) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Posts and Telegraphs (Telegraph Overseers) Recruitment Rules, 1975, under rule 3, the following entries shall be inserted, namely :—

"(i) Notwithstanding anything contained in the Schedule containing recruitment rules, the Government may induct staff of similar cadres from other units on re-organisation or for any other administrative reasons and their appointments in those posts shall be deemed to have been made from the date they were appointed to such posts in their original recruiting units."

3. In rule 6 of the said rules in respect of Savings in 2nd line after the word *reservations* the following words shall be inserted :—

"relaxation of age limit".

4. In the Schedule to the said Recruitment Rules, for the existing entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"D.P.C. will consists the following :—

- (1) Group 'A' Officer in (Telegraph Traffic Service) Senior Time Scale.
- (2) Group 'B' Officer in (Telegraph Traffic) Service.
- (3) Group 'B' Officer of Postal Service nominated by the Head of neighbouring Postal Circle."

[No. 19-6/76-NCG]

नई दिल्ली, 31 मई, 1979

सांकां० 871 --सर्विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रपति ने डाक मार विभाग में सहायक नर्स धात्री (Auxiliary Nurse Midwife) के पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं :—

- 1 छाटा शीर्ष और प्रचलन (1) ये नियम डाक मार सहायक नर्स धात्री भर्ती नियम, 1979 कहें जायेंगे।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2 वर्गीकरण एवं वेतनमान --इन पदों का वर्गीकरण तथा वेतनमान, इन नियमों में अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 व 3 में उल्लिखित है।
- 3 भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, योग्यता आदि --उक्त पदों के लिए भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, योग्यताएं और अन्य बातें अनुबद्ध अनुसूची के 4 में 12 तक कालमों में दी गई हैं।
- 4 उर्मा वरह के मर्ग में से भर्ती --इन नियमों की अनुसूची में जो दिया गया है उसके अलावा भी सरकार पुनः संगठन पर या अन्य प्रशासनिक कारणों से दूसरी इकाइयों में उर्मा वरह के कर्मचारियों को भर्ती कर सकती है।

5 योग्यताएं --शारीरिक व्यक्ति,--

- (क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह के लिए आबद्ध है या विवाह कर चुका है जिसकी/जिसका पत्नी/पति जीवित है।
- (ख) जो अपनी/अपने पत्नी/पति के जीवित रहते हुए, दूसरा विवाह कर चुका है या विवाह करने पर आबद्ध है।

उपरोक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा।

लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी के लिये व्यवहार्य वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह वैध है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकती है।

6 बोल देने की शक्ति :--यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक एवं उचित है तो वह आदेश द्वारा लिखित रूप में कारणों का वर्णन करने इन नियमों के किन्हीं भागों प्रावधानों में किसी भी बर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों को छूट दे सकती है।

7 अग्रबाब--समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशेष वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को दिये जाने वाले आरक्षण, आयुसीमा आदि में छूट आदिश्रियायकों पर इन नियमों का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची					
पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा सीधा भर्ती के लिए सीधा भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं	चयन पद अथवा सीधा भर्ती के लिए सीधा भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं	चयन पद अथवा सीधा भर्ती के लिए सीधा भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं
1	2	3	4	5	6
सहायक नर्स धात्री	सामान्य सिविल सेवा ग्रुप 'सी' गैर-निविदा- वर्गीय	हो 260-6-326- दो 260-8-350	व्यवहार्य नहीं	भर्ती के वर्ष की पहली जूलाई को 21 से 35 वर्ष।	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष और योग्यता प्राप्त सहायक नर्स धात्री (भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेट राजस्थान परिषद् द्वारा आयोजित सहायक नर्स धात्री के प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष है।)
स्वायत्त/अन्य परिषदों की अवधि के मामले में यदि कोई है	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती या पत्रोत्तरी/प्रतिनियुक्ति/अभरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति अभरण के मामले में जिस ग्रेड में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अभरण किया जाता है	चयन बोर्ड का गठन	चयन बोर्ड का गठन	चयन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना है।
सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी ?					
7	8	9	10	11	12
व्यवहार्य नहीं।	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	व्यवहार्य नहीं	(1) नार इंजीनियरी सेवा या डाक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का एक अधिकारी। (2) संबंधित औषाधालय का प्रभारी चिकित्सक	व्यवहार्य नहीं।

7	8	9	10	11	12
				(3) निम्न द्वारा नामित अधिकारी—	
				(क) दूरसंचार सर्कल या टेलीफोन जिले में न्यून के मामले में निकटतम डाक सर्कल द्वारा, अथवा	
				(ख) डाक सर्कल में न्यून के मामले में निकटतम दूरसंचार सर्कल या टेलीफोन जिला सर्कल या जिले अध्यक्ष की मर्जी पर निर्भर है कि वह उपरोक्त (क) और (ख) बदले राज्य निवेशक स्वायत्त सेवा के परामर्श से किसी राज्य सरकार के अधिकारी को नामित करे।	

[सं. 63-1/78-नान० सी० जी०]

मा० श्री० मजेश्वरी, सहायक महानिदेशक
(एस० टी० एन०)

New Delhi, the 31st May, 1979

G.S.R. 871.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the recruitment of Auxiliary Nurse Midwives in the Posts Telegraphs Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Posts and Telegraphs Department Auxiliary Nurse Midwives Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Classification of the post and scale of pay.—The classification of the post and scale of pay attached there shall be as specified in columns 2 and 3 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 4 to 12 of the said Schedule.

4. Inductions from similar cadre etc.—Notwithstanding anything contained in the Schedule to these rules, the Government may induct staff of similar cadre from other units on reorganisation or for any other administrative reasons.

5. Disqualifications—No person,—

- who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection posts or Non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Auxiliary Nurse Midwife	Central Civil Service Group 'C' Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Not applicable	Between 21—35 years on 1st July of the year of recruitment	Matriculation or equivalent and Qualified Auxiliary Nurse Midwife (Auxiliary Nurse Midwife Training is of two years duration conducted by State Registration Council, recognised by Indian Nursing Council.)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees/transferees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In the case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion deputation/transfer to be made.	The compositions of selection Board.	Circumstances in which U.P.S. C. is to be consulted in making recruitment
7	8	9	10	11	12
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(1) An Officer of the Junior Administrative Grade of Telegraph Engineering Service or Postal Service. (2) Doctor incharge of the Dispensary concerned. (3) Any officer nominated by the — (a) neighbouring postal Circle in case of selection in a Telecommunication Circle or Telephone District, OR (b) neighbouring Telecommunication Circle or Telephone District in case of a selection in a Postal Circle. It being open to the Head of the Circle or District to nominate in lieu of (a) and (b) above a State Government Medical Officer in consultation with the State Director of Health Services.	Not applicable

[No. 63-1/76-NCG]

M.S. YEGNESHWARAN, Asst. Director General (STN)

(डाक-तार)

नई दिल्ली, 16 जून, 1979

सांख्यिकी 872 — केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का सञ्चित नाम भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय तार नियम, 1951 के खण्ड 3क के नियम 434 की मद (1) की उपमद (क) की सारणी में, "साधारण और विशेष प्रवर्ग धार्यना पक्ष" शीर्ष के नीचे "एक समान दर विनियम से सम्बन्धित चौथे, पांचवें और छठे स्तम्भों में की प्रत्येक प्रविष्टि के स्थान पर "एक सी रुपए" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा० सं० 2-2/79-खिचर]

जे० धार० वशिष्ठ, सहाय नृदानिर्देशक (पी० ए०)

(Posts & Telegraphs)

New Delhi, the 16th June, 1979

G.S.R. 872.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the India Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the India Telegraph (Sixth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in Rule 434 in Section IIIA, in item (1) in sub-item (a), in the Table, under the heading "General and Special Category Applications", for each of the entries in the fourth, fifth and the sixth columns relating to "Flat Rate Exchanges", the entry "Rs. 100" shall be substituted.

[File No. 2-2/79-PHA]

J. R. VASHISHT, Assistant Director General (PHA)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जून, 1979

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 18 जून, 1979

सा. का. वि. 873.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परमपुत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम कल्याण निधि (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम श्रम कल्याण निधि (समूह ग और घ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. श्रम कल्याण निधि (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में,—

मद 18 के मामले,—

(क) स्तम्भ 10 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा श्रम कल्याण निधि पर अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 75 प्रतिशत।”

(ख) स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अयोग्य होने पर अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति

ऐसे कनिष्ठ लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा कर ली है।

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति।

ऐसे कनिष्ठ लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा कर ली है।”

[फा. सं. ए-11019(40)/78-एम. III]

जगदीश प्रसाद, अव्वर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 11th June, 1979

G.S.R. 873.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mica Mines Labour Welfare Fund (Group C & D posts) Recruitment Rules 1977, namely :—

(1) These rules may be called the Mica Mines Labour Welfare Fund (Group C and D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Mica Mines Labour Welfare Fund (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1977,—

against item 18,—

(a) for the entry in column 10, the following entry shall be substituted, namely :—

“By promotion 25 per cent on the results of a departmental competitive examination and 75 per cent on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.”

(b) for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

“Promotion on the basis of Seniority subject to rejection of the unfit Junior Clerks with eight years regular service in the grade.

“Promotion on the basis of Seniority subject to rejection of the unfit Junior Clerks with five years regular service in the grade.”

[F. No. A-11019(40)/78-M. III]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

सा. का. वि. 874.—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गेहूं वेलन आटा मिल (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश प्रती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गेहूं वेलन आटा मिल (अनुज्ञापन और नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. गेहूं वेलन आटा मिल (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1957 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) खंड 4 के उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञापन—

(क) फार्म-2 में होगी और जिस वर्ष से जारी की गई है उसकी 31 दिसम्बर तक विधिवान् रहेंगी,

(ख) एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकृत की जा सकेगी और नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन की वैधता समाप्त होने के 30 दिन पूर्व किया जाएगा,

(ग) नवीकरण के आवेदन को अनुज्ञापन प्राधिकारी तीन रुपये की फीस का संदाय किए जाने पर, अनुज्ञापन की वैधता के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर ग्रहण करेगा।

3. उक्त आदेश की अनुसूची में, फार्म-2 में, क्रम संख्या 3 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4 मिल की अनुज्ञापन/अनुमोदित मिलिंग क्षमता—है।”

[सं 5(जनरल)/79-डी एण्ड आर(1)-65]

कै. बालकृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 18th June, 1979

G.S.R. 874.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Wheat Roller Flour Mills (Licensing and Control Order, 1957, namely :—

1. (1) This Order may be called the Wheat Roller Flour Mills (Licensing and Control) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Wheat Roller Flour Mills (Licensing and Control) Order, 1957, hereinafter referred to as the said Order, in clause 4, for sub-clause (2) the following shall be substituted, namely :—

“(2) A licence issued under this Order—

(a) shall be in Form II and be valid until the 31st December of the year in which it is issued;

(b) may be renewed for one year at a time and application for renewal shall be made 30 days before the expiry of the validity of the licence;

(c) Application for renewal shall be entertained by the licensing authority within 30 days of the expiry of the validity of licence on payment of a fee of Rs. 3.”

3. In the Schedule to the said Order in Form II, after serial number 3, the following shall be inserted, namely :—

“4. Licensed/Approved milling capacity of the mill is

[No. 5(GENL)(1)/79-D&R(I) 65]
S. BALAKRISHNAN, Dy. Secy.